

Roll Number .....

Total No. of Printed Pages : 32

**B.Com. (Semester-III) Examination, 2024-25**

(For Regular &amp; NC) As per NEP 2020

ABST

**Paper Code : ABS-63T-1001 OMR Code : 60  
(Income Tax (ABST))**

Time : 3.00 Hours

Section – A For Reg./NC: 60/75 Marks

Section – B For Reg./NC: 60/75 Marks

Total Maximum Marks For Reg./NC : 120/150

**Instructions for Students ( छात्रों के लिए निर्देश )****Students are required to read the instructions carefully before starting solving the question paper.**

छात्रों को प्रश्न पत्र हल करना शुरू करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है।

**Section – A ( खण्ड – अ )**

1. Do not open the question booklet until you are asked to do so.	1. इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
2. There are 50 Multiple Choice Questions (MCQ) in the question booklet. All 50 questions are mandatory to solve.	2. प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न (MCQ) हैं। सभी 50 प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
3. Each question carries 1.20 mark for Regular student and 1.50 marks for NC student.	3. प्रत्येक प्रश्न नियमित विद्यार्थियों के लिए 1.20 अंक का तथा स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए 1.50 अंक का है।
4. There are four options for each questions. Fill the correct option in the OMR sheet.	4. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं। सही विकल्प ओ एम आर शीट में भरें।
5. Student have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the OMR Sheet. The circles on the OMR are to be darkened properly with black/ blue ball pen only.	5. छात्र को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए एक गोले (बबल) को ओ.एम.आर. शीट में गहरा करना है। ओ.एम.आर. पर बने गोले को केवल काले/नीले बॉल पैन से ही काला करना होगा।
6. Fill in all the information (i.e. Roll No. etc.) or both OMR sheet and question booklet before starting the question paper.	6. प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले ओ.एम.आर. शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों पर सभी जानकारी (यानि रोल नंबर आदि) भरें।
7. Submit OMR to the invigilator after completion of examination.	7. परीक्षा अवधि पूरी होने पर ओ.एम.आर. पर्यवेक्षक के पास जमा करवायें।
8. Student can leave examination hall only after completion of examination.	8. छात्र परीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकता है।



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 'Income' includes the following types :</p> <p>(a) Legal<br/>(b) Illegal<br/>(c) Both (a) and (b)<br/>(d) None of the above</p> <p>2. Under Income Tax Act depreciation is allowed on :</p> <p>(a) Purchase price<br/>(b) Market price<br/>(c) WDV<br/>(d) Face value</p> <p>3. The rate of depreciation on Intangible asset is :</p> <p>(a) 5%<br/>(b) 15%<br/>(c) 20%<br/>(d) 25%</p> <p>4. The income tax rate on long term capital gain for an individual is :</p> <p>(a) 10%<br/>(b) 15%<br/>(c) 20%<br/>(d) 25%</p> <p>5. Shares held for less than 12 months are _____ capital assets :</p> <p>(a) Short term<br/>(b) Long term<br/>(c) Exempted<br/>(d) Projected</p> | <p>1. आय में निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं-</p> <p>(a) कानूनी<br/>(b) अवैध<br/>(c) (a) व (b) दोनों<br/>(d) उपरोक्त कोई भी नहीं</p> <p>2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास स्वीकृत है-</p> <p>(a) क्रय मूल्य<br/>(b) बाजार मूल्य<br/>(c) डब्ल्यू डी वी<br/>(d) अंकित मूल्य</p> <p>3. अदृश्यमान (अमूर्त) सम्पत्तियों पर मूल्यहास की दर है .....</p> <p>(a) 5%<br/>(b) 15%<br/>(c) 20%<br/>(d) 25%</p> <p>4. किसी व्यक्ति के लिए दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर आयकर की दर क्या है?</p> <p>(a) 10%<br/>(b) 15%<br/>(c) 20%<br/>(d) 25%</p> <p>5. 12 महीनों से कम के लिए अंशों को रखने पर पूंजीलाभ है-</p> <p>(a) अल्पकालीन<br/>(b) दीर्घकालीन<br/>(c) करमुक्त<br/>(d) अनुमानित</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SET B

6. Cost of long term debentures \_\_\_\_\_  
(a) eligible for indexing  
(b) not eligible for indexing  
(c) none of these  
(d) both (a) and (b)
7. What is the date on which fair market value of assets acquired is determined?  
(a) 1.4.2001  
(b) 1.4.1971  
(c) 1.4.1981  
(d) 1.4.1991
8. Contribution made to an approved research association is eligible for deduction up to \_\_\_\_\_  
(a) 50%  
(b) 80%  
(c) 100%  
(d) 125%
9. Technical know have acquired after 1.4.98 is eligible for depreciation at :  
(a) 10% p.a.  
(b) 20% p.a.  
(c) 25% p.a.  
(d) 40% p.a.
10. Preliminary expenses shall be allowed or deduction in \_\_\_\_\_  
(a) 5 installments  
(b) 10 installments  
(c) 15 installments  
(d) 12 installments
6. दीर्घकालीन ऋणपत्रों की लागत .....  
(a) अनुक्रमण के लिए पात्र  
(b) अनुक्रमण के लिए योग्य नहीं  
(c) इनमें से कोई नहीं  
(d) (a) व (b) दोनों
7. वह कौन सी तिथि है जिस पर अर्जित संपत्ति के अंश का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है-  
(a) 1.4.2001  
(b) 1.4.1971  
(c) 1.4.1981  
(d) 1.4.1991
8. एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को किया गया योगदान कितनी कटौती के लिए पात्र हैं-  
(a) 50%  
(b) 80%  
(c) 100%  
(d) 125%
9. 1.4.1998 के बाद तकनीकी ज्ञान मूल्यहास के लिए पात्र है-  
(a) 10% p.a.  
(b) 20% p.a.  
(c) 25% p.a.  
(d) 40% p.a.
10. प्रारंभिक व्यय में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी-  
(a) 5 किशतों में  
(b) 10 किशतों में  
(c) 15 किशतों में  
(d) 12 किशतों में

11. Gifts form clients are \_\_\_\_\_
- (a) Professional income  
(b) Non taxable  
(c) Income from other sources  
(d) None of these
12. The total income of an individual is ₹ 3,46,994. The rounded off total income will be :
- (a) ₹ 3,46,000  
(b) ₹ 3,47,000  
(c) ₹ 3,46,990  
(d) ₹ 3,50,000
13. Advance tax is payable when tax payable by an assessee is \_\_\_\_\_ or more.
- (a) ₹ 5000  
(b) ₹ 10000  
(c) ₹ 15000  
(d) ₹ 20000
14. The maximum tax exemption to a senior citizen for the assessment year 2024-25 is :
- (a) ₹ 1,50,000  
(b) ₹ 2,50,000  
(c) ₹ 3,00,000  
(d) ₹ 3,50,000
15. Donation is deductible U/s :
- (a) 80 c  
(b) 80 d  
(c) 80 e  
(d) 80 g
11. ग्राहकों से उपहार हैं-
- (a) व्यवसायिक आय  
(b) कर योग्य नहीं  
(c) अन्य साधनों से आय  
(d) इनमें से कोई नहीं
12. एक व्यक्ति की कुल आय ₹ 3,46,994 है। कुल आय पूर्णाकों में होगी-
- (a) ₹ 3,46,000  
(b) ₹ 3,47,000  
(c) ₹ 3,46,990  
(d) ₹ 3,50,000
13. अग्रिम कर देय है जब एक करदाता द्वारा देय कर अधिक है-
- (a) ₹ 5000  
(b) ₹ 10000  
(c) ₹ 15000  
(d) ₹ 20000
14. कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए एक वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम कर छूट है-
- (a) ₹ 1,50,000  
(b) ₹ 2,50,000  
(c) ₹ 3,00,000  
(d) ₹ 3,50,000
15. दान किस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य है-
- (a) 80 c  
(b) 80 d  
(c) 80 e  
(d) 80 g

## SET B

16. Tax is chargeable on casual incomes :
- (a) 10% + surcharge and cessess
  - (b) 20% + surcharge and cessess
  - (c) 30%
  - (d) None of these
17. Speculation loss can be carried forward for \_\_\_\_\_
- (a) 8 years
  - (b) 10 years
  - (c) 5 years
  - (d) 4 years
18. Section 80 C applies on :
- (a) Individual and HUF
  - (b) Firm
  - (c) Co-operative society
  - (d) Company
19. The rent fixed as per municipal valuation is called :
- (a) Municipal value
  - (b) Actual rent
  - (c) Fair rent value
  - (d) Standard rent
20. When a loan is taken for the education of a child the father is entitled to deduction U/s \_\_\_\_\_
- (a) 80 c
  - (b) 80 g
  - (c) 80 e
  - (d) 80 u
16. आकस्मिक आय पर कर लगाया जाता है-
- (a) 10% + surcharge and cessess
  - (b) 20% + surcharge and cessess
  - (c) 30%
  - (d) इनमें से कोई नहीं
17. सट्टे से हुई हानि को आगे ले जाया जा सकता है-
- (a) 8 years
  - (b) 10 years
  - (c) 5 years
  - (d) 4 years
18. धारा 80सी किस पर लागू होती है-
- (a) व्यक्तिगत एवं HUF
  - (b) फर्म
  - (c) सहकारी समिति
  - (d) कंपनी
19. नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किराये को कहा जाता है-
- (a) नगरपालिका मूल्य
  - (b) वास्तविक मूल्य
  - (c) उचित किराया मूल्य
  - (d) प्रमाणित मूल्य
20. जब किसी बच्चे की शिक्षा के लिए ऋण लिया जाता है। तो पिता किस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने का हकदार है-
- (a) 80 c
  - (b) 80 g
  - (c) 80 e
  - (d) 80 u

21. The maximum amount deduction U/s 80 D in the case of a senior citizen is \_\_\_\_\_ .  
 (a) ₹ 20000  
 (b) ₹ 25000  
 (c) ₹ 50000  
 (d) ₹ 100000
22. Tax deduction available to certain industries for the initial few years is called :  
 (a) Tax holiday  
 (b) Tax exemption  
 (c) TDS  
 (d) None of these
23. Tax rate on Short Term Capital gain U/s 111 A is \_\_\_\_\_  
 (a) 5%  
 (b) 10%  
 (c) 15%  
 (d) 20%
24. Tax on Long Term Capital Gain is \_\_\_\_\_  
 (a) 10%  
 (b) 20%  
 (c) 25%  
 (d) 15%
25. Which of the following is not a capital asset?  
 (a) Stock in trade  
 (b) Goodwill  
 (c) Jewellery  
 (d) Agriculture land in Goa
21. वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 80डी के तहत अधिकतम कटौती योग्य राशि है-  
 (a) ₹ 20000  
 (b) ₹ 25000  
 (c) ₹ 50000  
 (d) ₹ 100000
22. प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए कुछ उद्योगों के लिए उपलब्ध कर कटौती को क्या कहा जात है-  
 (a) कर अवकाश  
 (b) कर मुक्त  
 (c) टीडीएस  
 (d) इनमें से कोई नहीं
23. धारा 111अ के अनुसार अल्पकालीन पूँजी लाभ पर कर की दर .....  
 (a) 5%  
 (b) 10%  
 (c) 15%  
 (d) 20%
24. दीर्घकालीन पूँजी पर कर की दर है-  
 (a) 10%  
 (b) 20%  
 (c) 25%  
 (d) 15%
25. निम्न में से कौन पूँजी सम्पत्ति नहीं है?  
 (a) व्यापारिक रहतिया  
 (b) ख्याति  
 (c) ज्वैलरी  
 (d) गोवा में कृषि भूमि

## SET B

26. The maximum amount deductible U/s 80GG interpect of rent paid is :
- (a) ₹ 24000 p.a.  
(b) ₹ 30000 p.a.  
(c) ₹ 72000 p.a.  
(d) ₹ 60000 p.a.
27. Rate of T.D.S. for unlisted securities including casses is :
- (a) 10.6%  
(b) 15.6%  
(c) 10%  
(d) 30.6%
28. Which one of the following in not on admissible expense?
- (a) Income tax  
(b) Excise duty  
(c) Bad debt  
(d) Sale tax
29. Free food provided to employees is exempted upto permed :
- (a) ₹ 25  
(b) ₹ 35  
(c) ₹ 60  
(d) ₹ 50
30. Under valuation of opening stock is\_\_\_\_
- (a) Deducted from net profit  
(b) Added to net profit  
(c) Credited to P & L A/c  
(d) None of the above
26. भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80 जी जी के तहत अधिकतम कटौती राशि-
- (a) ₹ 24000 p.a.  
(b) ₹ 30000 p.a.  
(c) ₹ 72000 p.a.  
(d) ₹ 60000 p.a.
27. उपकर सहित गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए टी डी एस की दर क्या है-
- (a) 10.6%  
(b) 15.6%  
(c) 10%  
(d) 30.6%
28. निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वीकृत व्यय नहीं है-
- (a) आयकर  
(b) सीमा शुल्क  
(c) डूबत ऋण  
(d) विक्रय कर
29. कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले मुफ्त भोजन ..... प्रति मील तक छूट दी गई है-
- (a) ₹ 25  
(b) ₹ 35  
(c) ₹ 60  
(d) ₹ 50
30. प्रारंभिक रहतिये के कम मूल्यांकन के तहत .....
- (a) शुद्ध लाभ में से कटौती योग्य  
(b) शुद्ध लाभ में जोड़ने योग्य  
(c) लाभ-हानि खाते में जमा  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

31. Income Tax Act came into force on :
- 1st April 1935
  - 1st April 1961
  - 1st April 1962
  - 1st April 1956
32. Income tax is a :
- Professional tax
  - Direct tax
  - Indirect tax
  - Service tax
33. Income tax rates are fixed in :
- Income tax act
  - Finance act
  - Income tax rules
  - Finance rules
34. Rebate of Income tax is defined as per section :
- 81A
  - 87A
  - 81C
  - 87C
35. Section 2 (A) of income tax deals with :
- Person
  - Assessee
  - Previous year
  - Assessment year

31. आयकर अधिनियम लागू हुआ-
- 1st April 1935
  - 1st April 1961
  - 1st April 1962
  - 1st April 1956
32. आयकर एक है-
- व्यवसायिक कर
  - प्रत्यक्ष कर
  - अप्रत्यक्ष कर
  - सेवा कर
33. आयकर की दरें किसमें तय की जाती है-
- आयकर अधिनियम
  - वित्त अधिनियम
  - आयकर नियम
  - वित्त नियम
34. आयकर में छूट किस धारा के अनुसार परिभाषित की गई है-
- 81A
  - 87A
  - 81C
  - 87C
35. आयकर की धारा 2 (A) संबन्धित है-
- व्यक्ति
  - करदाता
  - पिछला वर्ष
  - कर निर्धारण वर्ष

## SET B

36. Surcharge is levied when the total income exceeds :
- (a) 5 Crore  
(b) 10 Crore  
(c) 1 Crore  
(d) 2 Crore
37. As per income tax act, person includes :
- (a) Individual  
(b) HUF  
(c) Local authority  
(d) All above
38. Who is assessee in case of a HUF?
- (a) Karta  
(b) Deemed Karts  
(c) Coparcens  
(d) None of the above
39. Dividend from an Indian company is :
- (a) Fully taxable  
(b) Partly taxable  
(c) Fully exempted  
(d) None of these
40. Bonus paid by the employer to the employee is :
- (a) Fully taxable  
(b) Partly taxable  
(c) Fully tax free  
(d) None of these
36. कुल आय ..... से अधिक होने पर अधिकार लगाया जाता है-
- (a) 5 Crore  
(b) 10 Crore  
(c) 1 Crore  
(d) 2 Crore
37. आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति में शामिल है-
- (a) व्यक्तिगत  
(b) एवयु एफ  
(c) स्थानीय संस्था  
(d) उपरोक्त सभी
38. एच यु एफ के मामले में करदाता कौन है-
- (a) कर्ता  
(b) माना गया कर्ता  
(c) सहदायित्व  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
39. भारतीय कंपनी से लाभांश है-
- (a) पूर्ण कर योग्य  
(b) आंशिक कर योग्य  
(c) पूर्ण कर मुक्त  
(d) इनमें से कोई नहीं
40. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस है-
- (a) पूर्ण कर योग्य  
(b) आंशिक कर योग्य  
(c) पूर्ण कर मुक्त  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

41. Payment made by an employer to employee monthly, other than salary is called :
- (a) Bonus  
(b) Allowances  
(c) Benefits  
(d) None of the above
42. House Rount Allowance is :
- (a) Fully taxable  
(b) Partly taxable  
(c) Fully exempted  
(d) None of these
43. Agricultural income in Pakistan is assessable for :
- (a) Resident  
(b) Not ordinarily resident  
(c) Non-resident  
(d) Not taxable
44. Transport allowance given by the employer to the employee is exempt up to per month :
- (a) ₹ 1000 p.m.  
(b) ₹ 1600 p.m.  
(c) ₹ 1500 p.m.  
(d) ₹ 1200 p.m.
45. State which of the following income are exempted :
- (a) Dearness allowance  
(b) City compensatory allowance  
(c) Foreign allowance  
(d) Medical allowance
41. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन के अलावा मासिक रूप से किया जाने वाला भुगतान कहलाता है-
- (a) बोनस  
(b) भत्ते  
(c) लाभ  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
42. मकान किराया भत्ता है-
- (a) पूर्ण कर योग्य  
(b) आंशिक कर योग्य  
(c) पूर्ण कर मुक्त  
(d) इनमें में से कोई नहीं
43. पाकिस्तान में कृषि आय के लिए कर योग्य है-
- (a) निवासी  
(b) असाधारण निवासी  
(c) अनिवासी  
(d) कर योग्य नहीं
44. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला परिवहन भत्ता प्रति माह तक छूट प्राप्त है-
- (a) ₹ 1000 p.m.  
(b) ₹ 1600 p.m.  
(c) ₹ 1500 p.m.  
(d) ₹ 1200 p.m.
45. बताइए निम्न में से कौन सी आय छूट प्राप्त है-
- (a) महंगाई भत्ता  
(b) नगर क्षतिपूरक भत्ता  
(c) विदेशी भत्ता  
(d) चिकित्सा भत्ता

## SET B

46. Education allowances is exempted for :
- (a) One person
  - (b) Four person
  - (c) Two person
  - (d) None of these
47. Gratuity received by government employee is :
- (a) Full exempted
  - (b) Partly exempted
  - (c) Full taxable
  - (d) Exempted up to ₹ 100000
48. Profits earned from an illegal business are :
- (a) Taxable
  - (b) Ignored by tax authorities
  - (c) Tax free
  - (d) Treated as other income
49. Education less is charges at the rate of :
- (a) 1%
  - (b) 2%
  - (c) 4%
  - (d) 5%
50. Deduction from gross total income is allowed under sec. 80 up to lower of the qualifying amount or a maximum of :
- (a) ₹ 50,000
  - (b) ₹ 1,00,000
  - (c) ₹ 1,50,000
  - (d) ₹ 2,00,000
46. शिक्षा भत्ते के लिए छूट प्राप्त है-
- (a) एक व्यक्ति
  - (b) चार व्यक्ति
  - (c) दो व्यक्ति
  - (d) इनमें से कोई नहीं
47. सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी ..... है-
- (a) पूर्ण कर मुक्त
  - (b) आंशिक कर मुक्त
  - (c) पूर्ण कर योग्य
  - (d) ₹ 1,00,000 तक छूट प्राप्त
48. अवैध व्यापार से अर्जित लाभ ..... है-
- (a) कर योग्य
  - (b) कर अधिकारियों द्वारा मना करना
  - (c) कर मुक्त
  - (d) अन्य आय के रूप में माना जाना
49. शैक्षिक उपकर किस दर से लगाया जाता है-
- (a) 1%
  - (b) 2%
  - (c) 4%
  - (d) 5%
50. धारा 80 सी के तहत सकल कुल आय से कटौती की अनुमति है जो कि अर्हक राशि या अधिकतम में से कम हो-
- (a) ₹ 50,000
  - (b) ₹ 1,00,000
  - (c) ₹ 1,50,000
  - (d) ₹ 2,00,000

**B.Com. (Semester-III) Examination, 2024-25****(For Regular & NC)****ABST****Paper Code : ABS-63T-1001****Income Tax (ABST)****Section – B ( खण्ड – ब )****GENERAL INSTRUCTIONS ( सामान्य निर्देश )**

(i) No supplementary answer-book will be given to any candidate. Hence the candidate should write the answer precisely in the Main answer-book only.

किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जायेगी। अतः परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे मुख्य उत्तर-पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों का उत्तर लिखें।

(ii) In Section - B there are 6 questions the candidates are required to attempt 3 questions, each question carries 20 marks for regular students and 25 marks for non-collegiate.

खण्ड-ब में कुल 6 प्रश्न हैं परीक्षार्थी को 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न नियमित परीक्षार्थी के लिए 20 अंक का है एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी के लिए 25 अंक का है।

(iii) Make sure that your question booklet has all the 50 questions in Section - A and 6 questions in Section-B. Defection Booklet can be changed within 10 minutes.

प्रश्न-पुस्तिका में सभी खण्ड-अ में 50 प्रश्न एवं खण्ड-ब में 6 प्रश्न छपे हैं, इसकी जाँच कीजिए। त्रुटिपूर्ण पुस्तिका को 10 मिनट में बदलवाया जा सकता है।

(iv) If there is any difference in English and Hindi version, the English version will be considered authentic.

यदि प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी रूपान्तरण को ही सही माना जाये।



## Section – B ( खण्ड – ब )

1. Raman is appointed with A Ltd. and B Ltd. as salesman on part time basis. The particulars of his income for the previous year are as follows : 20/25

रमन, अ लिमिटेड एवं ब लिमिटेड में अंशकालिक कर्मचारी के रूप में विक्रयकर्ता नियुक्त है। गत वर्ष में उसकी आय के निम्न विवरण उपलब्ध हैं—

	A Ltd.	B. Ltd.
Basic Salary (मूल वेतन)	50,000	30,000
Dearness Allowance (महंगाई भत्ता)	16,000	4,000
Education Allowance for two Children (दो बच्चों के लिए शिक्षा, भत्ता)	—	3000
Reimbursement of Bills of Light and Gas (बिजली व गैस के बिलों का पुन भुगतान)	2400	—
Medical Allowance (चिकित्सा भत्ता)	—	2000
Reimbursement of Medical Bills (चिकित्सा भत्ते का पुनर्भुगतान) (Treatment was taken in a private Hospital)	4700	—
Employer's Contribution to RPF (कर्मचारी का आर पीएफ में अंशदान)	2000	1200
Value of Rent free Accomodation (किराया मुक्त आवास की सुविधा)	5000	—

Raman is neither a director nor having a substantial interest in any of the above companies. Is he a specified employee?

रमन न तो उपर्युक्त कम्पनियों में संचालक है व न ही उनमें साखान हित रखता है। क्या रमन आयकर की दृष्टि से विशिष्ट कर्मचारी है?

2. What is income? Explain the fundamental principles of determining income. 20/25

आय क्या है? आय निर्धारण के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।

3. Explain the provisions for set off and carry forward of losses. 20/25

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।

4. Taxable income of Shri Mohan lal from different sources during previous years uses ₹ 10,41,000. His agricultural income for the period was ₹ 42000. Find his tax liability on the basis of old tax regime as well as New tax regime for two A.Y. 2024-25. 20/25

## SET B

श्री मोहनलाल की गत वर्ष के लिए विविध साधनों से कर-योग्य आय ₹ 10,41,000 थी। इस अवधि के लिए उनकी कृषि से आय ₹ 42,000 थी। कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए उनका पुरानी एवं नई कर दरों के आधार पर कर-दायित्व ज्ञात करें।

5. Explain the whole process of assessment of HUF. 20/25

एक हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर-निर्धारण की पूर्ण प्रक्रिया को समझाइए।

6. Ram lal is a businessman. Details of his all business assets sold on 31st March, 2024 :

20/25

राम लाल एक व्यवसायी है। उनकी 31 मार्च, 2024 को बेची गयी समस्त व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है-

	<b>Particulars</b>	<b>Block of Building</b>	<b>Block of Machinery</b>	<b>Block of Furniture</b>
(i)	Year of acquisition (प्राप्ति का वर्ष)	1998-99	2005-06	2009-10
(ii)	W.D.V. on 1.4.2023 (1.4.2023 को अपलिखित मूल्य)	4,00,000	5,00,000	6,00,000
(iii)	Purchased in previous year 2023-24 (गत वर्ष 2023-24 में क्रय)	1,00,000	—	2,00,000
(iv)	Sale consideration as 31.03.2024 (31.03.2024 को विक्रय प्रतिफल)	5,00,000	7,00,000	17,00,000
(v)	Expenses an transfer (हस्तान्तरण के व्यय)	4000	5000	6000

Calculate the capital Gains of Ram lal for the Assessment year 2024-25.

कर निर्धारण वर्ष के 2024-25 लिए रामलाल के पूँजी लाभों की गणना कीजिए।